

### प्रेस नोट दिनांक 26-04-2021

आज दिनांक-26-04-2021 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत मतदान के दिन जनपद में निरन्तर भ्रमणशील रहकर विभिन्न मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) का निरीक्षण कर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों एवं पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया व कोविड संक्रमण से बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों उपकरणों मास्क, सैनिटाइजर तथा दो गज की दूरी का सदैव अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया । सभी मतदाताओं से कोविड-19 से बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु अपील की गई । महोदय द्वारा मतपेटियों के रखने हेतु जनपद में बनाये गये स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया ।

### प्रेस नोट दिनांक 26-04-2021

आज दिनांक-26-04-2021 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तृतीय चरण में बस्ती परिक्षेत्र के जनपद सिद्धार्थनगर में जारी मतदान के दिन जनपद सिद्धार्थनगर में भ्रमण कर मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) के स्थित का जायजा लिया गया । जिसके क्रम में महोदय द्वारा प्राथमिक विद्यालय देवरिया ब्लॉक मिठवल पर पहुँचकर वहाँ की स्थिति का जायजा लिया गया एवं ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया । महोदय द्वारा बूथ एजेंटों को भी सख्त निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि अगर मतदान के दौरान बूथ पर कोई भी गड़बड़ी या अशान्ति होती है तो उसके जिम्मेदार सभी बूथ एजेंट होंगे और उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा ॥ महोदय द्वारा सभी मतदाताओं से कोविड-19 से बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु अपील की गई ॥

### प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 26-04-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 26-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 179 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 18 वाहनों का चालान कर ₹ 17,500/- शमन शुल्क वसूल किया गया ।

### प्रेस नोट दिनांक 26-04-2021

आज दिनांक-26-04-2021 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत मतदान के दिन जनपद में निरन्तर भ्रमणशील रहकर विभिन्न मतदान केंद्रों (पोलिंग बूथ) का निरीक्षण कर ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों एवं पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया व कोविड संक्रमण से बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों उपकरणों मास्क, सैनिटाइजर तथा दो गज की दूरी का सदैव अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया । सभी मतदाताओं से कोविड-19 से बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु अपील की गई । महोदय द्वारा मतपेटियों के रखने हेतु जनपद में बनाये गये स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया ।